



East Buildtech Limited

(Formerly known as Chokhani Business Limited)

Regd. Office :
'CHOKHANI HOUSE'
D-3/2 Okhla Industrial Area, Phase-II,
New Delhi -110020 (INDIA)
Tel. : +91-11-26389150, 26384122
Fax. : +91-11-41615273
E-mail : contact@chokhani.in
CIN : L74999DL1984PLC018610

The General Manager
Corporate Relationship Department
BSE Ltd.
Phiroze Jeejebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai -400 001

Dated: 18th June, 2021

BSE SCRIP CODE: 507917

SUB: NEWSPAPER PUBLICATIONS FOR THE NOTICE OF 2nd BOARD MEETING OF THE COMPANY FOR THE FINANCIAL YEAR 2021-22.

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 and Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with SEBI circular CIR/CFD/CMD/4/2015 dated 9th September, 2015, please find enclosed herewith the Newspaper Publications for notice of the Board Meeting of the Company for the financial year 2021-22 to consider and approve Audited Annual Financial Results for the quarter and year ended on 31st March, 2021, published on 18th June, 2021 in the English Daily Newspaper "The Financial Express" and in the Daily Hindi Newspaper "Jansatta".

The above is for your information and records.

Thanking you

Yours faithfully

For East Buildtech Limited

SK Mandelia
Director
DIN 07136408



Think Positive on Industrial Surplus

Sell Industrial Surplus & Products

*(T&C apply)

FORM NO. INC 25 A
Advertisement for conversion of Public Company into a Private Company **BEFORE THE REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS, NEW DELHI** in the matter of the Companies Act, 2013, section 14 of Companies Act, 2013 and rule 41 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

AND
In the matter of **Saket Foods Limited** having its registered office at Kalpipara Assam Road, Bahraich-271801 U.P.

...Applicant
NOTICE is hereby given to the general public that the company intending to make an application to the Central Government under section 14 of the Companies Act, 2013 read with aforesaid rules and is desirous of converting into a Private Limited Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on **15th June, 2021**, to enable the company to give effect for such conversion.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change/status of the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his objections supported by an affidavit stating the nature of his interest and grounds of opposition to the concerned Regional Director, Northern Region, B-2 Wing, 2nd Floor, Pandit Deen Dayal Arundaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110 003, within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below:

For Saket Foods Limited
Sd/-
Atul Agarwal
Director
DIN 00981049

Date: 15th June, 2021
Place: Regd. Off. Kalpipara Assam Road, Bahraich-271 801 Uttar Pradesh

Kotak Mahindra Bank

Registered Office: 27 BKC, C-27, G-Block, Bandra
Branch Office: 7th Floor, Plot No.7, Sector-

You, the below mentioned borrower and co-borrower institution, more particularly described hereunder, by more and defaulted in repayment of the same. Consequently performing assets and said loan accounts along with receivables have been assigned in favour of Kotak Mahindra Bank mentioned hereunder. The bank has, pursuant to the Financial Asset and Enforcement of Security Interest Act, 2001 (Enforcement) Rules, 2002 as and by way of alternate security of the borrower, co-borrowers, securities, lender's interest and amount claimed there under are given as

Sr. No	Name And Address Of The Borrower, Co-Borrowers, Loan Account No., Loan Amount	Details
1.	Chanson Motors Private Limited Through Its Directors Mr. Harjeet Singh Chandok And Mrs. Daljeet Kaur Chandok At: B-45, Keshpur Industrial Area Vikaspuri, New Delhi. also At: A 112, Keshpur Industrial Area, Opposite H Block, Vikaspuri, New Delhi & Mr. Harjeet Singh Chandok & Mrs. Daljeet Kaur Chandok Both At: A112, Keshpur Industrial Area, Opposite H Block, Vikaspuri, New Delhi Both Also At: A - 39, Ganesha Nagar Near Tilak Nagar, Delhi. Mr. Harjeet Singh Chandok Also At: B-1/34, First Floor, Janakpuri, New Delhi Loan Account Number: XMORPN G00069879 Loan Amount Sanctioned: Rs. 4,70,00,000/- (Rupees Four Crores Seventy Lakhs Only).	All That Basement Without Right To Build Up Part Block A, Area Yds., Situated Janta Co-Society Ltd. Meera Bagh, Delhi - 110016, Phone No. 0172-5008900 Rights Of Property, Electorly Working Rights To U Passage A Building, Indivisible Rights Under Name Of T Motors Private Director Mr.

You, the borrower and co-borrowers are therefore called demanded amount with further interest as mentioned failing which the undersigned shall be constrained to mentioned securities. Your attention is invited to provide virtue of which you are at liberty to redeem the secured provision. Please note that as per section 13(13) of the above-referred securities by way of sale, lease or otherwise

Place: Delhi
Date: 18.06.2021

EAST BUILDTECH LIMITED
CIN: L74999DL1984PLC018610
Regd. Office: D-3/2, Okhla Industrial Area, Phase II, New Delhi-110020
Website: www.ebl.co.in
E-mail: secretarial@ebl.co.in, contact@ebl.co.in

NOTICE
Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of M/s. East Buildtech Limited is scheduled to be held on Friday, 25th June, 2021 at 11:30 A.M. at its Registered Office to consider and approve the Annual Audited Financial Results of the Company for the quarter and year ended on 31st March, 2021 and other items of Agenda.

The said Notice and Annual Audited Financial Results of the Company will be available at www.ebl.co.in, www.bseindia.com.
For East Buildtech Limited
Sd/-
Shiv Kumar Mandelia
[Director]
Place: New Delhi Date: 17.06.2021 DIN : 07136408

SALORA INTERNATIONAL LIMITED
L1968PLC004962
Okhla Industrial Area, New Delhi-110 020
Email: sect@salora.com
www.salora.com

NOTICE
that as per requirement of 47(1)(a) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, 6th meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on 21st June, 2021 at the Registered Office of the Company to consider and approve the Audited Financial Results of the Company for the quarter and year ended on 31st March, 2021.

accessed on the Company's website at www.salora.com and BSE Ltd. (Stock Exchange of India) for dealing in shares of the Company for all the Directors / their immediate relatives on 17th June, 2021 till the expiry of the said financial year and Financial Year ending 31st March, 2021.

For Salora International Ltd.
Sd/-
(Gopal Sitaram Jiwara)ka
Chairman & Managing Director
DIN: 00024325

PRITIKA INDUSTRIES LIMITED
Registered Office: S.A.S. Nagar Mohali Punjab - 160055
Phone No. 0172-5008900
www.pritikaautoindustries.com

SOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR YEAR ENDED 31.03.2021

(Rs. in Lakhs)

Quarter ended	31.03.2021		31.03.2020	
	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited
09.03.2021	3029.17	6472.78	530.19	22718.14
09.03.2020	308.77	310.98	4.61	855.51
09.03.2019	308.77	310.98	4.61	855.51
09.03.2018	339.67	221.48	-14.48	587.00
09.03.2017	482.64	223.17	75.72	733.70
09.03.2016				619.09

WINSOME YARNS LIMITED
Regd. Office: SCO, 191-192, Sector 34-A, Chandigarh
(CIN: L17115CH1990PLC010566)
Tel: 0172-4612000. Fax: 0172-4614000
Email: cshare@winsomegroup.com, URL: www.winsomegroup.com

NOTICE
Notice is hereby given that the next Board Meeting of the Company will be held on **29.06.2021 (Tuesday)** at SCO, 191-192, Sector 34-A, Chandigarh to consider and approve the Audited Financial Results for the quarter and year ended 31.03.2021. The notice of Board Meeting is also available at www.bseindia.com & www.nseindia.com.

On behalf of the Board
Place: Chandigarh
Date: 17.06.2021
Manish Bagrodia
Chairman & MD

ADINATH TEXTILES LIMITED
Regd. Office: Village Bholapur, P.O. Sahabana, Chandigarh Road, Ludhiana, 141 123
Tel.: +91 161-2685270, 9876100948
Email: ad@shreyangroup.com Website: www.adinathtextiles.com
CIN: L17115PB1979PLC003910

COMPANY NOTICE
Pursuant to regulation 47 read with regulation 29 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company shall be held on Friday, the 25th day of June 2021, *inter alia* to consider Audited Financial Results for the quarter & year ended 31st March, 2021.

Pursuant to regulation 47(2) of the above said regulations, the said notice can be accessed on Company's website at www.adinathtextiles.com and also on the portal of Bombay Stock Exchange at www.bseindia.com.

For Adinath Textiles Limited
Sd/-
Parminder Singh
Company Secretary
ACS 43115
Place: Ludhiana
Date: 17-06-2021

AHLUWALIA CONTRACTS (INDIA) LIMITED
Regd. Office: Plot No. A-177, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020
(CIN: L45101DL1979PLC009654)
Website: www.acilnet.com,
E-mail: - cs.corpoffice@acilnet.com

NOTICE
Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday the 26th June, 2021 hosted at Regd. Office A-177, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi - 110020 through virtual video conferencing, *inter-alia*, to consider the Audited Financial Results for the quarter and year ended 31.03.2021 with audit report by the statutory auditor of the Company and other agenda items, if any.

In accordance with the Company's Code of Conduct to regulate, monitor and report trading by insiders, adopted by the Board pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, the trading window for dealing in the securities of the Company is closed for the designated persons from 1st April, 2021 to till 48 hours after the announcement of financial results.

The information is also available on the website of the Company viz. www.acilnet.com and the website of the Stock Exchange, where the Company's shares are listed viz. BSE Limited (www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Ltd (www.nseindia.com).

For Ahluwalia Contracts (India) Ltd
Sd/-
Vipin Kumar Tiwari
Company Secretary
Place: New Delhi
Date: 16.06.2021

FRUITION VENTURE LIMITED
CIN: L74899DL1994PLC058824
Regd. office: 21-A, 3rd Floor Savitri Bhawan, Commercial Complex Mukherjee Nagar, New Delhi - 110009
Tel: +91-11-27468600 Website: www.fvl.co.in; Email: csfruitionventure@gmail.com

NOTICE
Pursuant to clause 41 of the listing Agreement, Notice is hereby given that the Meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, the 25th day of June, 2021 at A-21, 4th Floor, Savitri Bhawan, Commercial Complex, Mukherjee Nagar, New Delhi -110009 to *inter alia* consider and approve the audited financial results of the Company for the quarter & year ending March 31, 2021.

For and on behalf of the Board
Fruition Venture Limited
Sd/-
(Sanhit Jain)
DIN: 05338933
Place: New Delhi
Date: 17.06.2021

HINDUSTAN ADHESIVES LIMITED
Registered Office: B-2/8 Safdarjung Enclave, New Delhi -110029
CIN-L74899DL1988PLC031191

NOTICE
Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Friday, 25th June, 2021, *inter-alia*, to consider and approve the Audited financial results of the Company for quarter ended on 31st March, 2021.

The information contained in this notice is also available on the Company's website at www.bagla-group.com and the website of the Stock Exchange BSE Limited - www.bseindia.com.

For Hindustan Adhesives Limited
Sd/-
M.S. Bagla
Managing Director
DIN-01425846
Place: New Delhi
Date: 17.06.2021

FORM NO. URC-2
Advertisement giving notice about registration under Part-I of Chapter XXI of the Act
[Pursuant to section 374(b) of the Companies Act, 2013 and rule 4(1) of the Companies (Authorised to Register) Rule, 2014]

1. Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (2) of section 366 of the Companies Act, 2013, an application is proposed to be made after fifteen days hereof but before the expiry of thirty days hereafter to the Registrar at Central Registration Center, IICA, Plot No. 6, 7, 8, Sector 5, IMT Manesar, Gurgaon-122050, Haryana, that M/S Stigen Martech LLP a LLP may be registered under Part I of Chapter XXI of the Companies Act, 2013, as a Company limited by shares.

2. The principal objects of the Company are as follows: business of providing all kinds of services in relation to digital technology, Information Technology and Marketing of Goods and Services

3. A copy of the draft memorandum and articles of association of the proposed company may be inspected at the office at 164, Sector-30, Gurgaon -122001.

4. Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate their objection in writing to the Registrar at Central Registration Center, IICA, Plot No. 6, 7, 8, Sector 5, IMT Manesar, Gurgaon-122050 Haryana within twenty-one days from the date of publication of this notice, with a copy to the Company at its registered office.

Name(s) of Applicant

Sd/- Sanchit Babbar
DIPIN: 08259825
(Designated Partner)

Sd/- Protik Basu
DIPIN: 08259826
(Designated Partner)

Sd/- Joydeep Gangopadhyay
DIPIN: 06529760
(Designated Partner)

Date: 09.06.2021
Place: Gurgaon

